

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
राजभाषा अनुभाग
उक्षेविस परिसर, कटवारिया सराय
नई दिल्ली-110016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण मुख्यालय में हिंदी पखवाड़ा 2021 के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन।

केविप्रा मुख्यालय में इस वर्ष दिनांक 14 सितंबर, 2021 से 28 सितंबर, 2021 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। अध्यक्ष, केविप्रा के निर्देशानुसार कोविड-19 संबंधी सुरक्षा निर्देशों का ध्यान रखते हुए एवं प्रतिभागियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रतियोगिताओं का आयोजन निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन (जी-मीट के माध्यम से) किया जाएगा:

(क) हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता - दिनांक 16 सितंबर, 2021 पूर्वाह्न 11 से 12 बजे तक। प्रतिभागियों को दिए गए 3-4 समसामयिक विषयों में से किसी एक विषय पर 1 घंटे की समयावधि में हिंदी में सारगर्भित निबंध लिखना होगा। निबंध का विषय प्रतियोगिता के दौरान ही बताया जाएगा। समय समाप्त होने के उपरांत अपनी उत्तर पुस्तिकाएं निर्धारित समयावधि के भीतर ऑनलाइन अपलोड करनी होंगी।

पुरस्कार: प्रथम पुरस्कार - 2000 रुपए
द्वितीय पुरस्कार - 1500 रुपए
तृतीय पुरस्कार - 1000 रुपए

(ख) हिंदी टिप्पण एवं मसौदा लेखन प्रतियोगिता - दिनांक 17 सितंबर, 2021 पूर्वाह्न 11 से 12 बजे तक।

प्रतियोगिता का प्रश्न पत्र प्रतियोगिता के दौरान ही बताया जाएगा। शेष प्रक्रिया उपर्युक्त (क) की भांति होगी।

पुरस्कार: प्रथम पुरस्कार - 2000 रुपए
द्वितीय पुरस्कार - 1500 रुपए
तृतीय पुरस्कार - 1000 रुपए

(ग) एमटीएस के लिए हिंदी अनुच्छेद लेखन प्रतियोगिता - दिनांक 20 सितंबर, 2021 पूर्वाह्न 11 से 12 बजे तक।

प्रतियोगिता का प्रश्न पत्र प्रतियोगिता के दौरान ही बताया जाएगा। शेष प्रक्रिया उपर्युक्त (क) की भांति होगी।

पुरस्कार:	प्रथम पुरस्कार	- 2000 रुपए
	द्वितीय पुरस्कार	- 1500 रुपए
	तृतीय पुरस्कार	- 1000 रुपए

(घ) राजभाषा नियम/अधिनियम तथा हिंदी भाषा/साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता - दिनांक 21 सितंबर, 2021 पूर्वाह्न 11 बजे से 11.30 बजे तक।

50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।

पुरस्कार:	प्रथम पुरस्कार	- 2000 रुपए
	द्वितीय पुरस्कार	- 1500 रुपए
	तृतीय पुरस्कार	- 1000 रुपए

(ङ) केविप्रा के अधिकारियों के लिए ऑनलाइन वाद-विवाद/भाषण प्रतियोगिता - दिनांक 22 सितंबर, 2021 पूर्वाह्न 11 बजे से।

वाद-विवाद/भाषण का विषय, प्रतियोगिता के आयोजकों द्वारा प्रतियोगिता के दौरान सूचित किया जाएगा।

पुरस्कार:	प्रथम पुरस्कार	- 2000 रुपए
	द्वितीय पुरस्कार	- 1500 रुपए
	तृतीय पुरस्कार	- 1000 रुपए

(उक्त सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले उन सभी प्रतिभागियों को जिन्हें कोई पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है, प्रोत्साहन स्वरूप उचित प्रतिभागिता पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।)

2. उक्त प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि कृपया अपने नाम, पदनाम, प्रभाग/अनुभाग का नाम, मोबाइल नं., प्रतियोगिता जिसमें भाग लेना चाहते हैं, पुरस्कार राशि के अंतरण हेतु अपने बैंक खाते का विवरण तथा अपनी ई-मेल आईडी सहित पूर्ण विवरण दिनांक 15 सितंबर, 2021 तक राजभाषा अनुभाग की ई-मेल rajbhashacea@gmail.com पर भिजवाने का कष्ट करें।

3. उक्त सभी प्रतियोगिताओं के प्रश्न पत्र तैयार करने एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य अध्यक्ष, केविप्रा के अनुमोदन से गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय सर्वमान्य होगा तथा निर्णय के संबंध में किसी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. केविप्रा मुख्यालय के सभी नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों (आयोजन एवं मूल्यांकन समिति के सदस्यों को छोड़कर) से अनुरोध है कि वे कृपया उपर्युक्त सभी प्रतियोगिताओं में भाग लें तथा अपने अधीनस्थ कर्मियों को भी प्रतिभागिता हेतु प्रेरित करें। सभी प्रतियोगिताओं के विजेताओं की घोषणा दिनांक 28 सितंबर, 2021 को अपराह्न 3.30 बजे जी-मीट के माध्यम से आयोजित किए जाने वाले पखवाड़ा समापन समारोह के दौरान किया जाएगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सहायक निदेशक (राजभाषा)

सेवा में,

1. केविप्रा मुख्यालय के सभी नियमित अधिकारी/कर्मचारीगण
2. मूल्यांकन समिति-1 के अध्यक्ष एवं सभी सदस्य